

प्रेस नोट थाना गगहा दिनांक 05-05-2021

हत्या के आरोप में 02 नफर वान्छित अभियुक्त/ अभियुक्ता गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के कुशल मार्ग निर्देशन व पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 दीपु कुँवर का0 विजय यादव म0का0 प्रतिभा सिंह मय सरकारी बोलेरो मय हे0का0 चालक मंगरू यादव के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, पेन्डिंग विवेचना तलाश वांछित अभियुक्त, सुरागरसी पतारसी में ग्राम सकरी के पास मौजूद था कि मुखबीर खास आकर मिला और बताया कि साहब मु0अ0सं0 127/2021 धारा 302 भादवि की अभियुक्त/अभियुक्ता नन्हे व रीमा घनश्याम सिंह के छः बिगहा बगीचा ग्राम डूमरी तलाब के पास बगीचे में मौजूद है। और कही भागने के फिराक में है यदि जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर मैं प्रभारी निरीक्षक हमराहिगणों को मुखबीर की बात से अवगत कराते हुये, मय मुखबीर के प्रस्थान कर घनश्याम सिंह के छःबिगहा बगीचा ग्राम डूमरी तलाब के पास आया तो मुखबीर ने बगीचे में बैठे एक स्त्री व एक आदमी की तरफ इशारा करके बताया कि साहब यही नन्हे व रीमा और मुखबीर चला गया की हम पुलिस वालों दोनो व्यक्तियों की तरफ जैसे ही आगे बढ़ने लगे दोनो ही हम पुलिस वालों को अपनी तरफ आते देखकर सकपका से गये और भागने का प्रयास किये कि हम पुलिस वाले चारो तरफ से घेर घार कर मौके पर पकड़ लिया गया व म0का0 प्रतिभा द्वारा महिला को पकड़ लिया गया। पकड़े गये अभियुक्त/अभियुक्ता से उसका नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम नन्हे पुत्र मनगू निवासी ग्राम मडिहवा थाना गगहा गोरखपुर बताया व दुसरे ने अपना रीमा पत्नी स्व0 शंकर सा0 मडिहवा थाना गगहा गोरखपुर बताया। इतमिनान हो जाने पर अभियुक्त/अभियुक्ता को मु0अ0सं0127/2021 धारा 302 भादवि जूर्म से अवगत कराते हुये समय करीब 17.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। जिन्हे जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का नाम व पता –

- 1-नन्हे पुत्र मनगू निवासी ग्राम मडिहवा थाना गगहा गोरखपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0127//2021 धारा 302 भादवि
- 2-रीमा पत्नी स्व0 शंकर सा0 मडिहवा थाना गगहा गोरखपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0127//2021 धारा 302 भादवि

गिरफ्तारी का स्थान व समय

घनश्याम सिंह के छःबिगहा बगीचा ग्राम डूमरी तलाब के पास दिनांक 04.05.2021 व समय करीब 17.30 बजे

गिरफ्तार करने वाले अधि0/कर्म0गण –

- (1) प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह थाना गगहा जनपद गोरखपुर
- (2) हे0का0 दीपूँ कुवर थाना गगहा गोरखपुर
- (3) का0 विजय यादव थाना गगहा गोरखपुर
- (4) म0का0 प्रतिभा सिंह थाना गगहा गोरखपुर